



# Subharti Dental College & Hospital

## SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

E-mail : subharti@subharti.org, Website : www.subharti.org

Recognized by Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. Letter No. V.12017/22/96-PMS(Pt.II)

Ref. No. ..SD.C.I.C.F.R./2016/427

Dated ....29/11/20

### TO WHOM IT MAY CONCERN


This is to certify that **Kirti Singh D/o Sh.Sunil Kumar Singh** has been admitted in BDS course 2016 -17 Batch at Subharti Dental College & Hospital, Meerut through NEET - 2016. The duration of course is of 4 years.

#### Fee Structure

		<u>Ist year</u>	
Due Date	College Fee	:	Rs.3,25,000/-
31.10.2016	Other Onetime Miscellaneous fee	:	Rs. 100,000/-
		<u>IInd year</u>	
Due Date	College Fee	:	Rs.3,25,000/-
31.10.2017			
		<u>IIIrd year</u>	
Due Date	College Fee	:	Rs.3,25,000/-
31.10.2018			
		<u>IVth year</u>	
Due Date	College Fee	:	Rs.3,25,000/-
31.10.2019			

Total Rs. 14,00,000/-



  
Dr. Nikhil Srivastava  
Principal





Galgotias University

Plot No.2, Sector 17-A, Yamuna Expressway  
Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh 201310.  
Contact No. - 0120 437 0000

Fee Receipt

Student Copy

Receipt No. : 2019-20/C9/CC/TF/3920	Receipt Date : 06/06/2019
Admission No. : 19GSOL 1020125	Enrollment No. :
Student Name : MAYNK SINGH	Admitted Bessalon : 2019-2020
Guardian's Name : Sunil Kumar Singh	Payment Type : General
Mother's Name : Jyoti Singh	Semester : Sem I
Mobile : 7895694022	Country :
Email ID : I.MAYANK2000@GMAIL.COM	Admission Status : active
Gender : MALE	Admission Category : GU
Address : Q-52 PALLAVPURAM PHASE-2, Meerut, Uttar Pradesh, 250001	Program : Integrated B.A. + LLB (Hons.)

Sr. No.	Fee Detail (For Session 2019-20)	Total Due(Rs.)	Received(Rs.)	Rebate(Rs.)	Balance(Rs.)
1	Tuition Fee	100000.0	100000.0	0.0	0
2	Exam Fee	10000.0	10000.0	0.0	0
Amount Paid : 110000.0		Adjusted Amount : 0.0	Net Balance : 0.0	Excess : 0.0	

Payment Details


Amount to be Received From

S.No.	Mode	Bank	Chq/DD No.	Chq/DD Date	Amount	S. No.	To Be Received From	Ref No.	Amount	
1	CASH				110000.0	1	Received Amount		110000.0	
						2	Special Rebate To Students		0.0	
									<b>Total Amount</b>	<b>110000.0</b>

Remark :

WE THANKFULLY ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF Rs. ( 110000.0 )

( Rs. One Lakh Ten Thousand Rupees Only )



( MAYNK SINGH )  
Signature of Student



# आनन्द हॉस्पिटल

Run by: ANAND NIROGDHAM HOSPITAL PVT.LTD.

AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED

A-1, Damodar Colony, Garh Road, Meerut (U.P.)  
Ph: +91-121-2792000, 4014800  
Fax : +91-121-4030690  
E-mail: anandnirogdham@gmail.com  
Website: www.anandhospital.com

Anand Hospital

We Believe in **Caring**, not just **Curing**...

Most Advanced Fracture Care . Joint Replacement . Arthroscopy

डा. संजय जैन

एम.एस. (आर्थो.)

Orthopedic Trauma &

Joint Replacement Surgeon

Fellow : AO International Switzerland

Reg No. -29236

Mrs. Jyoti

48yrs

do heri @ ankle & foot

H/O legging 4 in bank

heri knee dis h>R, instability  
knee arthroscopy 15 mins  
T-10, L-12 heri  
neck heri  
Elbow heri @  
Trans elbow

Navicular

Arthro T. ++

D - H - M -

A C G  
N N +

ankle = R

foot = R

knee = R

knee = L

21/6/18

परामर्श समय - आनन्द अस्पताल प्रातः 11.00 बजे से 1.30 बजे तक, सोमवार से शनिवार  
क्लीनिक : ईव्ज क्रासिंग, मेरठ, सांय 6:00 बजे से सांय 7:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार

हेल्प लाईन - क्लीनिक: ईव्ज चौराहा - 0121 2649553

सुखवीर सिंह - 9412297786 नवीन शर्मा - 9837453857

(परामर्श के लिये पहले हेल्प लाइन नं0 पर समय ले लें।)

रविवार अवकाश

email : drsanjay7130@yahoo.com | Reg. No. 29236

Pillow as per  
- neck / head / spine  
fixation as per

- Axial distal nail  
weekly  
X10

- to defect - 6 d

- to closure 10

X 2 days  
11/11

Blood

Hb: 7.00  
ESR chf.

Accep.  
RA factor  
Viti B, Ca, A

22  
21/6/18

WNLs.

L89 - FPSC MODIPURAM  
 shop no.9  
 Vardhman Palaza, Roorkee Road c Pocket  
 Pallavpuram Meert

Name : Mrs. JYOTI  
 Lab No. : 249987995 Age: 48 Years Gender: Female  
 A/c Status : P Ref By : Dr.SANJAY JAIN  
 Collected : 25/6/2018 8:34:00AM  
 Received : 25/6/2018 8:47:59AM  
 Reported : 25/6/2018 7:45:26PM  
 Report Status : Final

Test Name	Results	Units	Bio. Ref. Interval
<b>C-REACTIVE PROTEIN; CRP, SERUM *</b> (Immunoturbidimetry)	1.93	mg/L	<5.00

**Comments**

CRP is an acute phase reactant which is used in inflammatory disorders for monitoring course and effect of therapy. It is most useful as an indicator of activity in Rheumatoid arthritis, Rheumatic fever, tissue injury or necrosis and infections. As compared to ESR, CRP shows an earlier rise in inflammatory disorders which begins in 4-6 hrs, the intensity of the rise being higher than ESR and the recovery being earlier than ESR. Unlike ESR, CRP levels are not influenced by hematologic conditions like Anemia, Polycythemia etc.

<b>RHEUMATOID FACTOR (RA), SERUM *</b> (Immunoturbidimetry)	<10.00	IU/mL	<14.00
--	--------	-------	--------

**Comments**

Rheumatoid factor is an antibody directed against the Fc portion of the IgG molecule. Polyreactive RF has binding specificity for substances other than IgG like nuclear components. This polyreactive RF is usually of the IgM class with low affinity. RF is not specific only for Rheumatoid arthritis, but it is often seen in cases of chronic infection and other systemic inflammatory conditions. Healthy individuals > 65 years of age may also show positive RF results. In addition to the common IgM RF, both IgA RF & IgG RF have been detected. IgA RF has been related to the more severe form of the disease with erosions.

<b>VITAMIN D, 25 - HYDROXY, SERUM</b> (CLIA)	22.48	nmol/L
---	-------	--------

**Interpretation**

LEVEL	REFERENCE RANGE IN nmol/L	COMMENTS
Deficient	< 50	High risk for developing bone disease
Insufficient	50-74	Vitamin D concentration which normalizes Parathyroid hormone concentration
Sufficient	75-250	Optimal concentration for maximal health benefit
Potential intoxication	>250	High risk for toxic effects

**Note**

- The assay measures both D2 (Ergocalciferol) and D3 (Cholecalciferol) metabolites of vitamin D.
- 25 (OH)D is influenced by sunlight, latitude, skin pigmentation, sunscreen use and hepatic function.

\* Not in NABL scope



# डा० संजय प्रकाश

बी०एस०सी०, बी०ए०एम०एस  
(कानपुर यूनिवर्सिटी)

ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक  
कालेज, हरिद्वार

Mob. No.: 7983440649  
9358992744

श्री ॐ ५

आयुर्वेदिक उपचार  
जटिल एवं जीर्ण रोगों की  
आयुर्वेदिक चिकित्सा

क्लीनिक :

78/6, जागृति विहार, मेरठ।

89, कैलाशपुरी, मेरठ।

श्री संजय प्रकाश

दिनांक 26/6/2018

आयुर्वेदिक  
Kottakkal

सुखान्त

गंधर्वेलम (Sift gel)

Tes Ostikot

आर्यो पोषक वटी

पंचमूल

अष्टावटी

सुखान्त

आम्लीपत्र मिश्रण

दो-दो ग्राम प्रति किलो  
आम्लो त्रैफल

श्री संजय प्रकाश  
26/6/2018

रजि० नं० 42470

सी०एम०ओ० रजि० नं० 000

समय प्रातः 11-00 से दोपहर 1-30 वजे तक

(पर्चा एक सप्ताह के लिये मान्य)

# MEERUT ORTHOPAEDIC & RESEARCH CENTRE

• Shri Krishna Tower, Garh Road, Meerut (10.00 a.m. to 3.00 p.m.)  
• R-120, Phase-II, Pallavpuram (Opp. Pani ki Tanki), Meerut (Time : 4.00 p.m to 8.00 p.m.)

**Dr. M.C. Saini**

M.S. (Orthopaedics)

Consultant & Arthroscopic &

Ex. Arthroscopic Surgeon

P.D. National Hinjuda Hospital (Mumbai)



**डा० एम० सी० सैनी**

एम०बी०बी०एस०, एम०एस० (ऑर्थोपेडिक्स)

कन्सलटेन्ट एव ऑर्थोस्कोपिक सर्जन (स्पोर्ट्स सर्जन)

भू०पू० ऑर्थोस्कोपिक सर्जन

पी०डी० नेशनल हिन्दुजा हॉस्पिटल (मुम्बई)

**VISITING SENIOR SURGEON IN ANAND HOSPITAL**

## उपलब्ध सुविधायें

दूरबीन विधि द्वारा जोड़ों की जाँच एवं उपचार जैसे-



चलने में घुटने का लड़खड़ाना या लचक लेना  
(A.C.L./P.C.L. लिगामेन्ट टूटना)



घोट व ऑपरेशन के बाद जोड़/ घुटने का जाम होना।



कन्धे का बार-बार जोड़ से खिसकना।



जोड़ के चारों ओर जटिल फ्रैक्चर सभी प्रकार के रोड एक्सीडेंट इन्जरीज



लिम्ब लेन्थनिंग  
2 से 4 इंच तक लम्बाई बढ़ाना

**कूल्हा एवं घुटना बदलना**

**एमरजेंसी सेवा 24 घंटे**

Pt = Mrs Jyoti Singh दिनांक 10/1/19  
46 years

Op. Arthroscopy L.R.A. to O.A. Both knee.

Adv

Bed Rest  
Mupirocin ointment

Knee Brace for O.A.

Tot - 10000/-

Op - 10000/-

Op - 10000/-

Help Line 24 Hrs.: 9927349512, 0121-2579878

This Prescription is not Valid for Medical Purpose

नोट:- यह पर्चा केवल पाँच दिनों के लिये मान्य है।

**अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा मेरठ का पहला ऑर्थोस्कोपिक एवं स्पोर्ट्स इन्जरीज सेंटर**

# MEERUT ORTHOPAEDIC & RESEARCH CENTRE

• Shri Krishna Tower, Garh Road, Meerut (10.00 a.m. to 3.00 p.m.)

• R-120, Phase-II, Pallavpuram (Opp. Pani ki Tanki), Meerut (Time : 4.00 p.m to 8.00 p.m.)

**Dr. M.C. Saini**

M.S. (Orthopaedics)

Consultant & Arthroscopic &

Ex. Arthroscopic Surgeon

P.D. National Hinjuda Hospital (Mumbai)



**डा० एम० सी० सैनी**

एम०बी०बी०एस०, एम०एस० (ऑर्थोपेडिक्स)

कन्सलटेन्ट एव ऑर्थोस्कोपिक सर्जन (स्पोर्ट्स सर्जन)

भू०पू० ऑर्थोस्कोपिक सर्जन

पी०डी० नेशनल हिन्दुजा हॉस्पिटल (मुम्बई)

## VISITING SENIOR SURGEON IN ANAND HOSPITAL

### उपलब्ध सुविधायें

दूरबीन विधि द्वारा जोड़ों की जाँच एवं उपचार जैसे-



चलने में घुटने का

लड़खड़ाना या लचक लेना

(A.C.L./P.C.L. लिगामेन्ट टूटना)



चोट व ऑपरेशन के बाद जोड़/ घुटने का जाम होना।



कन्धे का बार- बार जोड़ से खिसकना।



जोड़ के चारों ओर जटिल फ्रैक्चर सभी प्रकार के रोड एक्सीडेंट इन्जरीज



लिम्ब लेन्थनिंग

2 से 4 इंच तक लम्बाई बढ़ाना

### कूल्हा एवं घुटना बदलना

एमरजेंसी सेवा 24 घंटे

PTA Mrs Jyoti Singh

दिनांक 20/4/17

464444

HTP Pain in Both knee last 4y (L) (R)

L.T. + at medial joint

It crepitus + on medial side

rom are restricted at similar flexion & painful;

OA Both knee.

Adv

Bed rest x 1M

2 weeks - ASHFF - M.R

Help Line 24 Hrs.: 9927349512, 0121-2579878

This Prescription is not Valid for Medicolegal Purpose

नोट:- यह पर्चा केवल पाँच दिनों के लिये मान्य है।

अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा मेरठ का पहला ऑर्थोस्कोपिक एवं स्पोर्ट्स इन्जरीज सेंटर



Syoti

Date 25/5/2017

OA Bil Rec

May Bil Rec  
(AB  
ret m)  
(In claudy)

6  
TB. MONTA 100  
12/17  
TB. RESIST 100  
5/17  
TB. ACET 100  
1/17  
} x 200

25/5/17



**L89 - FPSC MODIPURAM**  
 shop no.9  
 Vardhman Palaza, Roorkee Road c Pocket  
 Pallavpuram Meert

<b>Name</b> : Mrs. JYOTI	<b>Collected</b> : 26/8/2019 4:32:00PM
<b>Lab No.</b> : 270649145	<b>Received</b> : 26/8/2019 4:42:41PM
<b>Age</b> : 40 Years	<b>Reported</b> : 26/8/2019 7:11:59PM
<b>Gender</b> : Female	<b>Report Status</b> : Final
<b>A/c Status</b> : P	
<b>Ref By</b> : Dr. N P Singh	

Test Name	Results	Units	Bio. Ref. Interval
<b>KIDNEY PANEL; KFT, SERUM</b> (Spectrophotometry, Indirect ISE)			
Urea	18.70	mg/dL	17.00 - 43.00
Creatinine	0.73	mg/dL	0.51 - 0.95
Uric Acid	3.51	mg/dL	2.60 - 6.00
Calcium, Total	9.31	mg/dL	8.80 - 10.60
Phosphorus	3.28	mg/dL	2.40 - 4.40
Alkaline Phosphatase (ALP)	126	U/L	30 - 120
Total Protein	7.31	g/dL	6.40 - 8.30
Albumin	4.07	g/dL	3.50 - 5.20
A : G Ratio	1.26		0.90 - 2.00
Sodium	136.50	mEq/L	136.00 - 146.00
Potassium	4.55	mEq/L	3.50 - 5.10
Chloride	104.90	mEq/L	101.00 - 109.00





# आनन्द हॉस्पिटल

Run by: ANAND NIROGDHAM HOSPITAL PVT.LTD.

AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED

Anand Hospital

We Believe in **Caring**, not just **Curing**...

A-1, Da modar Colony, Garh Road, Meerut (U.P.)

Ph: +91-121-2792000, 401480

Fax : +91-121-403069

E-mail: anandnirogdham@gmail.com

Website: www.anandhospital.com

मास ज्योति

डा. एन.पी. सिंह

एम.डी. (मैडिसिन)

UPMCI Reg No. - 27632

CMO Reg: MRT - 01532

दिनांक : ..... 26 AUG 2011

Linck-25

Zeta 0.25

Neoborn-300

Rel-40-TR

Bulid-4440

Dr. Subodh

BP-150/120

Subodh

Subodh

Subodh

MRT - Subodh

Subodh

Subodh

Subodh

Subodh

Subodh

Subodh

27 days

मिलने का समय -

प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक

सम्पर्क करें : (राज सिंह) 7900756830

एपाइंटमेंट के लिए : 9 बजे से 11 बजे तक


रोगी के विषय में जानकारी के लिए : 3 बजे से 5 बजे तक

**शनिवार व रविवार अवकाश**

क्रम संख्या:

20322017005616

S.No:



Form No. - 6



उत्तर प्रदेश सरकार

Government Of Uttar Pradesh

मेरठ नगर निगम

Meerut Municipal Corporation

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 एवं उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विनियम 2003 के नियम 8 के अधीन जारी)

(Issued under the Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act 1969 and under rule 8 of Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules 2003)

(मृत्यु प्रमाण पत्र)

(Death Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख (जो मृत्यु के स्थान पर जारी की गई है) से लिया गया है।  
मेरठ नगर निगम, राज्य उत्तर प्रदेश के रजिस्टर में अंकित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is in the register for Meerut Municipal Corporation State U.P.

नाम	
Name	RAVIL KUMAR
पिता/पति का नाम	
Name of Father/Husband	HUKAM SINGH
लिंग	
Sex	MALE
मृत्यु का दिनांक एवं स्थान	
Date of Death & Place	07/09/2017-Q 90/91 PALI AVPURAM PHASE II, MEERUT
पंजीकरण संख्या	
Registration No.	20322017005616
पंजीकरण का दिनांक	
Date of Registration	26/09/2017
जारी दिनांक	
Issued Date	26/09/2017
स्थान/जिला	
Place/District	MEERUT

रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु

Registrar Birth & Death

Digitally Signed by

KUNWAR SAIN

Signed on: 26/09/2017

Code: 1310093

- Fully Computerized Clinical Lab
- Biochemistry Lab
- Microbiology Lab
- Histopathology Lab
- Hormones Lab

Q-1 Pallav Puram, Phase - II, Divider Road, Meerut  
Ph: 9675718891 • e-mail: modernpathlabmeerut@gmail.com

Date : 26/10/2013

Lab. Ref. No. : 19

Patient's Name : Mr. Hukum Singh


Age / Sex : 66 Yrs. /Male


Referred by : Self

TEST NAME	RESULTS	UNITS	NORMAL-RANGE
<b>HAEMATOLOGY</b>			
PLATELET COUNT	47,000	/cmm	150000 - 400000

-----{End of Report}-----

Path



  
DR. SHILPI SHARAN  
MD (PATHOLOGY)  
CONSULTANT PATHOLOGIST



# Modern Path Lab

Q-1 PALLAV PURAM, PHASE - II, DIVIDER ROAD, MEERUT. MOB: 9675718891

**DR. SHILPI SHARAN**

M.B.B.S., M.D. (PATH)

Ex. CONSULTANT PATHOLOGIST  
**APPOLO HOSPITAL, GURGAON**

Regn. No. CMO MRT 2395

Fully Computerized Clinical Lab  
Biochemistry Lab  
Microbiology Lab  
Histopathology Lab  
Hormones Lab

Date : 05/02/2019

Lab. Ref. No. : 9

Patient's Name : Mr. Hukam Singh

Age / Sex : 71 Yrs. /Male

Referred by : Self


TEST NAME	RESULTS	UNITS	NORMAL-RANGE
-----------	---------	-------	--------------

**BIOCHEMISTRY**

Blood Sugar (R)	297.4	mg%	70 - 140
-----------------	-------	-----	----------

-----{End of Report}-----

Path

  
**DR. SHILPI SHARAN**  
M.B.B.S., M.D. (PATH)

PLEASE NOTE :

1. Report pertains to sample submitted & name offered. Identity of patient is not to be disclosed.

# Diabetes, Thyroid & Hormone Care Clinic

**Dr. Manmohan Sharma**

M.D. (Med.), D.M. (Endocrinology)  
Consultant Diabetologist & Endocrinologist

**डा० मनमोहन शर्मा**

एम.डी. (मेडिसिन), डी.एम. (एण्डोक्राइनोलॉजी)  
प्रायक्टिज, थायरॉइड एव हारमोन रोग विशेषज्ञ



T2DM 20 y

Hukam Singh

71 y

R/o Pallav Puram

T2DM / BPH

Tob. Azulix 4 MF

नाश्ते के आधा घंटा पहले

रात खाने के आधा घंटा पहले

2) Unimax . 4

रात खाने के तुरन्त बाद

3) 1/2 Diabul-D

नाश्ते के तुरन्त बाद

**D-Rise** SACHET

सप्ताह में एक बार दूध में घोलकर

4) Inj. Insulin 20/70  
24 IU 1/2  
14 IU 1/2

नाश्ते के आधा घंटा पहले  
रात खाने के आधा घंटा पहले

HbA1c -

**Diabetic Profile,**

TSH, CBC, P/c 6/8

Uric Acid, SGPT 25

HbA1c 12.2

FUNCTIONS EXAMINATION

आंख के पद की जाव

विशेषज्ञ • डायबिटिज (शुगर) • थायरॉइड • मोटापा • लेबाई कम • बाइपेस • नाश्ते के आधा घंटा पहले  
• चेहरे पर अनचाहे बाल • मासिक की अनियमितताये • रजोनिवृत्ति सम्बन्धित समस्याये • हड्डियों कमजोर होना

क्लीनिक :  
निकट भाग्यश्री हॉस्पिटल  
गढ़ रोड, मेरठ।

Timing : 10:00 AM to 02:00 PM  
05:00 PM to 07:00 PM

पर्चा सात दिनों के लिये मान्य है।  
फोन द्वारा नंबर लिखे जाने की सुविधा नहीं है।  
www.drmanmohansharma.com

Phone : 0121-2610214  
9337256565, 9754996836  
8339422189 (Helpline)

**रविवार पूर्ण अवकाश**

6/2/19

**L89 - FPSC MODIPURAM**  
 shop no.9  
 Vardhman Palaza, Roorkee Road c Pocket  
 Pallavpuram Meert

Name	: Mr. HUKAM SINGH	Collected	: 8/2/2019 11:13:00AM
Lab No.	: 252583294	Age: 70 Years	Gender: Male
A/c Status	: P	Ref By: Dr. MANMOHAN SHARMA	Reported
			: 8/2/2019 11:24:05AM
			: 8/2/2019 3:11:13PM
			Report Status : Final

Test Name	Results	Units	Bio. Ref. Interval
<b>COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)</b> (SLS, Flow cytometry, DC Detection)			
Hemoglobin	14.40	g/dL	13.00 - 17.00
Packed Cell Volume (PCV)	43.00	%	40.00 - 50.00
RBC Count	4.98	mill/mm3	4.50 - 5.50
MCV	86.30	fL	80.00 - 100.00
MCH	28.90	pg	27.00 - 32.00
MCHC	33.50	g/dL	32.00 - 35.00
Red Cell Distribution Width (RDW)	14.60	%	11.50 - 14.50
Total Leukocyte Count (TLC)	7.36	thcu/mm3	4.00 - 10.00
<b>Differential Leucocyte Count (DLC)</b>			
Segmented Neutrophils	54.40	%	40.00 - 80.00
Lymphocytes	31.50	%	20.00 - 40.00
Monocytes	5.20	%	2.00 - 10.00
Eosinophils	8.80	%	1.00 - 6.00
Basophils	0.10	%	<2.00
<b>Absolute Leucocyte Count</b>			
Neutrophils	4.00	thou/mm3	2.00 - 7.00
Lymphocytes	2.32	thou/mm3	1.00 - 3.00
Monocytes	0.38	thou/mm3	0.20 - 1.00
Eosinophils	0.65	thou/mm3	0.02 - 0.50
Basophils	0.01	thou/mm3	0.01 - 0.10
Platelet Count	68.0	thou/mm3	150.00 - 450.00

Platelets are reduced.  
 Few Giant platelets are seen  
 Advised:  
 Follow up and Review.  
 Result rechecked

**Note**  
 1. As per the recommendation of International council for Standardization in Hematology, the differential leucocyte counts are additionally being reported as absolute numbers of each cell in per unit volume of



L89 - FPSC MODIPURAM  
 shop no.9  
 Vardhman Palaza,Roorkee Road c Pocket  
 Pallavpuram Meerut

Name	: Mr. HUKAM SINGH	Collected	: 8/2/2019 11:13:00AM
Lab No.	: 252583294	Age: 70 Years	Gender: Male
A/c Status	: P	Ref By : Dr. MANMOHAN SHARMA	Received
			: 8/2/2019 11:24:05AM
			Reported
			: 8/2/2019 3:11:13PM
			Report Status
			: Final

Test Name	Results	Units	Bio. Ref. Interval
DIABETES PANEL BASIC (Hexokinase, HPLC)			
Glucose, Random	340.90	mg/dL	70.00 - 140.00
HbA1c	12.2	%	
Estimated average glucose (eAG)	303	mg/dL	

Result Rechecked,  
 Please Correlate Clinically.

**Note:- Urgent repeat advise in case there is no clinical correlation.**

**Interpretation**

As per American Diabetes Association (ADA)	
Reference Group	HbA1c in %
Non diabetic adults >=18 years	4.0 - 5.6
At risk (Prediabetes)	5.7 - 6.4
Diagnosing Diabetes	>= 6.5
Therapeutic goals for glycemc control	. Goal of therapy: < 7.0 . Action suggested: > 8.0

**Note**

1. Since HbA1c reflects long term fluctuations in the blood glucose concentration, a diabetic patient who is recently under good control may still have a high concentration of HbA1c. Converse is true for a diabetic previously under good control but now poorly controlled
2. Target goals of < 7.0 % may be beneficial in patients with short duration of diabetes, long life expectancy and no significant cardiovascular disease. In patients with significant complications of diabetes, limited life expectancy or extensive co-morbid conditions, targeting a goal of < 7.0 % may not be appropriate
3. Any condition that shortens erythrocyte survival such as sickle cell disease, pregnancy (second and third trimesters), hemodialysis, recent blood loss or transfusion, or erythropoietin will falsely lower HbA1c results regardless of the assay method
4. In patients with HbA1c level between 7-8%, Glycemark (1,5 Anhydroglucitol) test may be done to identify those with more frequent and extreme hyperglycemic excursions

**Comments**





L89 - FPSC MC IRAM  
 shop no.9  
 Vardhman Palaza, Roorkee Road c Pocket  
 Pallavpuram Meert

Name : Mr. HUKAM SINGH  
 Lab No. : 252583182 Age: 70 Years Gender: Male  
 A/c Status : P Ref By : Dr. MANMOHAN SHARMA

Collected : 14/2/2019 2:40:00PM  
 Received : 14/2/2019 2:54:24PM  
 Reported : 14/2/2019 6:10:30PM  
 Report Status : Final

Test Name	Results	Units	Bio. Ref. Interval
<b>COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)</b> (SLS, Flow cytometry, DC Detection)			
Hemoglobin	14.50	g/dL	13.00 - 17.00
Packed Cell Volume (PCV)	44.30	%	40.00 - 50.00
RBC Count	5.05	mill/mm3	4.50 - 5.50
MCV	87.70	fL	80.00 - 100.00
MCH	28.70	pg	27.00 - 32.00
MCHC	32.70	g/dL	32.00 - 35.00
Red Cell Distribution Width (RDW)	14.30	%	11.50 - 14.50
Total Leukocyte Count (TLC)	8.70	thou/mm3	4.00 - 10.00
<b>Differential Leucocyte Count (DLC)</b>			
Segmented Neutrophils	64.70	%	40.00 - 80.00
Lymphocytes	25.60	%	20.00 - 40.00
Monocytes	4.80	%	2.00 - 10.00
Eosinophils	4.80	%	1.00 - 6.00
Basophils	0.10	%	<2.00
<b>Absolute Leucocyte Count</b>			
Neutrophils	5.63	tho./mm3	2.00 - 7.00
Lymphocytes	2.23	tho./mm3	1.00 - 3.00
Monocytes	0.42	tho./mm3	0.20 - 1.00
Eosinophils	0.42	tho./mm3	0.02 - 0.50
Basophils	0.01	tho./mm3	0.01 - 0.10
Platelet Count	112.0	tho./mm3	150.00 - 450.00

Platelets are reduced.  
 Few Giant platelets are seen  
 Advised:  
 Follow up and Review.  
 Result rechecked

**Note**

1. As per the recommendation of International council for Standardization in Hematology, the differential leucocyte counts are additionally being reported as absolute numbers of each cell in per unit volume of





# Dushyant Medical Center

L-2, PALLAVPURAM PHASE-2, MEERUT

Date: 2/1/17

Rx

Dr. Dushyant Kaushik  
(Cons. Physician)  
Ex. Res. Medical Officer Delhi  
Reg. No. 2507  
C.M.O. Meerut Reg. No. MRT-01338  
Mob.: 9897881777

Mr. Sachin S/O

As  
Case related to

2

Mefenbro  
(2)

1/2

- As Ampic
- Moxib
- Ceftio
- Fluoro
- Zindec

2/1/17

**DUSHYANT CLINIC**  
L-2, PALLAVPURAM  
PHASE -2, MEERUT  
Mob.: 9897881777

Morning : 9:00 a.m. to 1:00 p.m.  
Evening : 5:00 p.m. to 9:00 p.m.

**-: Timings :-**

Not for medico legal purpose.  
(Identity of Patient is not certified)



Patient Name : Mrs Sudha Singh  
 Age & Sex : 67 Years / Female  
 Referring Doctor : Dr. ARUN SHARMA  
 Reg No. : MIM-A-042653  
 Path No : 3,765  
 Sample Drawn Date : 07-03-2017 16:30:44  
 Report Date : 07-03-2017 17:14:42

**HAEMATOLOGY REPORT**

DESCRIPTION	VALUE OBSERVED	UNITS	REFERENCE RANGE
<b>CBC/COMPLETE HAEMOGRAM</b>			
Haemoglobin	: 9.9	g/dl	12-16.0
Total WBC Count	: 7500	\cmm	4000-10000
R.B.C. Count	: 5.04	mil/cmm	3.8-5.5
Packed Cell Volume(PCV)	: 31	%	36- 45
Mean Corpuscular Volume	: 61.508	cu micron	80-97
Mean Corpuscular hemoglobin	: 19.643	picograms	26.5-33.5
Mean Corpuscular Hb conc.	: 31.9355	g/dl	31.0-35.0
Platelet Count	: 192	x10 <sup>3</sup> /u	150-450
Neutrophils	: 53	%	40-70
Lymphocytes	: 44	%	20-40
Eosinophils	: 02	%	00-06
Monocytes	: 01	%	01-10

NOTE:- Assay result should be interpreted only in the context of other laboratory finding and the total clinical status of the patient.

Dr. ANSHUMAN SHARMA  
 MBBS DPB

Name: **Sudha, Sudha**

OD

OS



ID: CZMI717133341

Exam Date: 12/7/2018

12/7/2018

Moolchand Sharbati Devi Eye

DOB: 2/7/1959

Exam Time: 11:26 AM

11:26 AM

Gender: Female

Serial Number: 4000-6203

4000-6203

Technician: Operator, Cirrus


Signal Strength: 3/10

4/10

# Macula Thickness OU: Macular Cube 512x128


OD ● ● OS

OD ILM-RPE Thickness Map




Fovea: 233, 77


OS ILM-RPE Thickness Map





Fovea: 223, 79




OD OCT Fundus




OD ILM-RPE Thickness



OS ILM-RPE Thickness



OS OCT Fundus



ILM - RPE		OD	OS
Thickness Central Subfield (µm)		194	137
Volume Cube (mm³)			
Thickness Avg Cube (µm)			


OD Horizontal B-Scan

BScan: 77



OS Horizontal B-Scan

BScan: 79



Comments

Doctor's Signature

SW Ver: 7.0.2.5  
Copyright 2013  
Carl Zeiss Meditec, Inc  
All Rights Reserved